



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 27—नवम्बर 2, 2007 (कार्तिक 5, 1929)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27—NOVEMBER 2, 2007 (KARTIKA 5, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक
सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुम्बई, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

एसबीडी क्र. 8/2007-08--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री लक्ष्मीनारायण राव के स्थान पर डा. सी. एल. लक्ष्मीपती गौडा, 601/23, आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी., पाटनचेरु, हैदराबाद-502324 को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के निदेशक पद पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 से 9 अक्टूबर, 2010 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATE & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 1st October 2007

SBD. No. 8/2007-08—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Dr. C. L. Laxmipathi Gowda, 601/23, ICRISAT, Patancheru, Hyderabad-502 324, as a Director on the Board of State Bank of Hyderabad for a period of three years with effect from 10th October 2007 to 9th October 2010 (both days inclusive) in place of Shri P. Laxminarayana Rau.

O. P. BHATT
Chairman